

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी 2010—पौष 24, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी 2010

फा. क्र.-17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2009-10 सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक, की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला-श्योपुर

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	पद एवं कार्यालय (3)	सेवा/संवर्ग का नाम (4)
1	श्री एस. एस. कारखुर	अधीक्षक, भू-अभिलेख, श्योपुर	भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
2	श्री जालिम सिंह धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, श्योपुर	भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
3	श्री बी. डी. धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, श्योपुर	भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
4	श्री के. के. तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, श्योपुर	भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त